

LOK SABHA DEBATES BILLS ON WOMEN QUOTA, DELIMITATION, HOUSE STRENGTH COUNT

Naari Shakti watching, PM warns



Prime Minister Narendra Modi speaks in the Lok Sabha during the special session of Parliament, in New Delhi on Thursday

VIKAS PATHAK
New Delhi, April 16

ADDRESSING CONCERNS OVER representation, especially in southern and smaller states, Prime Minister Narendra Modi on Thursday said that no state will be discriminated against in the delimitation of constituencies linked to the reservation of seats for women in the Lok Sabha and state Assemblies. He said "the proportion of seats (in the Lok Sabha) will not change".

He cautioned Opposition parties that women of the country would not forgive them if they were to stall implementation of the proposed law for "inclusion of 50% of the population in policy making" which was "the need of the hour" and could not be delayed any longer.

Participating in the Lok Sabha discussion on three Bills relating to reservation for women, delimitation and increase in the strength of Lok Sabha, Modi said, "Naari Shakti will be watching our decision (nimay), and more than that, our intent (neeyat). They will never forgive any ill-intention on our part."

Seeking to address concerns over the fallout of delimitation of constituencies, especially in

Tamil Nadu where the ruling DMK under MK Stalin has been opposing delimitation, he said, "The proportion of seats will not change; the increase will be in the same proportion... If you want a guarantee or a promise, I will say so. If there is a good word in Tamil, I will use it. When the intention is good, we do not need to play with words."

He said one who has taken oath on the Constitution should think of the country in parts, that it has to be seen as a nation. He said he was willing to offer a guarantee and a promise that the proportionate share of states in Lok Sabha would not change after its expansion, as sought by the Bills.

Underlining that everyone wanted early implementation of the quota for women in 2023, he said 2024 was too close to implement it. The need of the hour, he said, was not to delay it any longer. "None has given us the right to sit here and think of the country in terms of parts. We have taken an oath and have to see ourselves as a nation... But in

view of the frenzy being whipped up for votes, I say with responsibility that this decision will not discriminate against anyone or do injustice to anyone," he said.

"We should not delude ourselves into thinking that we are giving something to Nari Shakti of the country. It is her right. We have denied it for decades and we should liberate ourselves from that," he said.

He also said he was willing to offer a guarantee that the proportionate share of states in Lok Sabha won't change after its expansion

"Today, we don't have the courage to deny it openly, so technical points and excuses are being sought... You have staled it for three decades, but achieved nothing. So, pass it now," he urged members.

"Some people here think that Modi's political greed is behind this... If you oppose it, it is natural that I will gain politically. But if we all come together, none will benefit in particular."

He linked the passage of the women's quota Bill to the aspiration for a developed India. "Viksit Bharat also inclusion of 50% of the population in policymaking," he said.

'Open attack on democracy': Oppn slams govt move

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, April 16

CONGRESS LEADER PRIYANKA GANDHI Vadra on Thursday said the government began finishing off democracy by putting pressure on institutions, such as the Election Commission (EC) and the judiciary, but now, an "open attack" has been launched on democracy with the Constitution amendment Bill.

Participating in the debate in the Lok Sabha, she asked why can't the government give 33% reservation to women on the current 543 seats of the Lok Sabha. If this Constitution amendment Bill is passed in Parliament, democracy will be finished in India, she added.

Samajwadi Party president Akhilesh Yadav accused the BJP-led central government of turning 'naari' (women) into a "naara" (slogan) for political benefits and demanded reservation for OBC and Muslim women under the proposed women's quota law. During the debate, Yadav said the Samajwadi Party has always supported reservation for women and furthered the cause of women-led development.

The former Uttar Pradesh chief minister sought to corner the ruling party on the women's reservation issue, saying that the BJP and its allies have governments in 21 states and Union Territories, but they have only one woman chief minister in Delhi.

Meanwhile, Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin burnt a copy of the delimitation Bill and dubbed it a "black law", alleging it seeks to make the



Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin burns a copy of the proposed delimitation Bill, in Namakkal, Tamil Nadu

Tamil people "refugees" in their own land.

Stalin hoisted a black flag and burnt a copy of the Bill at Namakkal in western Tamil Nadu, where he is campaigning in connection with electioneering, hours before the Parliament was to sit for a special session.

"Poradavom, Velum ondraga" (Let us struggle, win together) was among the slogans raised by Stalin and others clad in black.

In a statement, Stalin said: "Let the flames of resistance spread across Tamil Nadu. Let the arrogance of the fascist BJP be brought down. Then, the fire of resistance against Hindi imposition that rose from Tamil Nadu scorched Delhi. It quietened only after Delhi was forced to yield."

POLL POSITION

Vijay's TVK promises money, gold & more

TVK CHIEF VIJAY on Thursday unveiled sweeping assurances in the party manifesto ahead of the April 23 Assembly elections in Tamil Nadu that included ₹2,500 monthly assistance for women below 60 years, 8 g gold for marriage and six free cooking gas cylinders a year,

per family. The actor-turned-politician also assured a quality silk saree in addition to gold for indigent brides and interest-free loans up to ₹5 lakh for women-run SHGs. He assured corruption-free good governance if voted to power in his maiden electoral fight.



—PTI

Mamata 'welcomes' infiltrators: Assam CM

ASSAM CHIEF MINISTER Himanta Biswa Sarma on Thursday asserted that while BJP governments in his state and Tripura don't allow infiltration from Bangladesh, TMC supremo Mamata Banerjee "welcomes" illegal immigrants in West Bengal. He was addressing an election rally in support of BJP candidates here at Alipurduar district bordering Assam.

UP CM targets TMC over 'mafia rule'

UTTAR PRADESH CHIEF Minister Yogi Adityanath mounted a sharp attack on the ruling TMC during a series of rallies in West Bengal, alleging the state had been pushed into an "identity crisis" over the past 15 years because of corruption, extortion and the rise of what he described as "mafia rule". He was addressing poll meetings in Birbhum's Rampurhat and Bolpur and Paschim Bardhaman's Barabani.

—PTI

SC: Bengal voters cleared by tribunals before polls can vote

ANANTHAKRISHNAN G
New Delhi, April 16

IN A SIGNIFICANT decision for the West Bengal polls, the Supreme Court has allowed voters cleared by Appellate Tribunals, set up for the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in the state, to vote in the Assembly polls—provided their appeals are decided before April 21 and 27, respectively, for the first and second phases.

The court said their names will be added through a "supplementary revised electoral roll" for the two-phase elections to be held on April 23 and April 29.

A bench of Chief Justice of India Surya Kant and Justice Jyotsna Bagchi said in its April 13 order, which was made available Thursday, that "if an appeal is allowed by the Appellate Tribunal and a conclusive direction for inclusion or exclusion is issued, such directions shall be duly effectuated prior to the State of West Bengal proceeding



West Bengal CM Mamata Banerjee welcomed the apex court's decision



to polling on 23.04.2026 or 29.04.2026, as the case may be."

Welcoming the order, Chief Minister Mamata Banerjee told reporters in Cooch Behar that she has directed workers of the ruling TMC to deliver voters slips "overnight" to ensure that excluded voters whose names

figure in the supplementary list can cast their ballots.

In its order, the SC bench said it was invoking its powers under Article 142 to direct the Election Commission (EC) that "whenever the Appellate Tribunals are able to decide the appeals by 21.04.2026 or 27.04.2026, as the case may be, such appellate orders shall be given effect to by issuing a supplementary revised electoral roll, and all necessary consequences with respect to the right to vote shall follow."

The bench, however, clarified that "mere pendency of appeals preferred by excluded persons before the Appellate Tribunals shall not entitle them to exercise their right to vote". It said: "...if such a scenario were to be permitted to subsist, the consequence would be that objectors may likewise seek denial of the right to vote to those individuals whose names appear in the revised electoral roll, but against whom such objectors have preferred appeals."

Schneider Electric Infrastructure Limited
CIN: L31900GJ2011PLC064420
Registered Office: Milestone 87, Vadodara - Halol Highway, Village Kotambi, Post office Jarod, Vadodara - 391510, Gujarat, India
Corporate Office: 15th Floor, DT-4, DLF Downtown, Phase 3, Sector 25A, Gurugram, Haryana - 122002
Tel: +91 9228078000; website: <https://infra-in.se.com>

NOTICE TO SHAREHOLDERS
SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGMNT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

Pursuant to SEBI Circular HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/13750/2026 dated January 30, 2026, shareholders are informed that a special window has been opened for a period of one year from February 5, 2026 to February 4, 2027 only for re-lodgment of transfer deeds of physical shares along with physical share certificates which were lodged prior to the deadline of April 1, 2019 and were rejected/ returned/ not attended to, due to deficiency in the documents/ process or otherwise. Eligible Shareholders can take this opportunity and re-lodge request for registration of transfer by furnishing necessary documents to Company's Registrar and Transfer Agent (RTA), CB Management Services (P) Ltd at rtat@cbmsl.com or at their office at Rasoi Court 5th Floor, 20, Sir R N Mukherjee Road, Kolkata - 700001 or can write to the Company at company.secretary@schneider-electric.com for further assistance. During this period, the transferred shares shall be issued only in demat mode, once all documents are found in order by RTA. For more details, please refer to the said SEBI circular hosted on the website of the Company at <https://infra-in.se.com/en/investor/notices-circulars/>.

For Schneider Electric Infrastructure Limited
Sd/-
Sumit Goel
Company Secretary & Compliance Officer

Date: April 16, 2026
Place: Gurugram

HDFC MUTUAL FUND
BHAROSA APNO KA
MUTUAL FUNDS Sahi Hai

HDFC Asset Management Company Limited
CIN: L65991MH1999PLC123027

Registered Office: HDFC House, 2nd Floor, H.T. Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020. Phone: 022 66316333 • Toll Free Nos: 1800-3010-6767 / 1800-419-7676
e-mail: hello@hdfcfund.com • Visit us at: www.hdfcfund.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that HDFC Trustee Company Limited, Trustee to HDFC Mutual Fund ("the Fund"), has approved the following distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") Option of **HDFC Arbitrage Fund**, an Open-ended Scheme investing in Arbitrage Opportunities ("the Scheme") and fixed **Tuesday, April 21, 2026** (or the immediately following Business Day, if that day is not a Business Day) as the Record Date for the same:

| Name of the Scheme / Plan(s) / Option(s) | Amount of Distribution (₹ per unit)# | Face Value (₹ per unit) | Net Asset Value ("NAV") as on April 15, 2026 (₹ per unit) |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|
| HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan - Regular Plan - Normal IDCW Option (Payout and Reinvestment) | | | 10.968 |
| HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan - Direct Plan - Normal IDCW Option (Payout and Reinvestment) | | | 11.716 |
| HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan - Regular Plan - Monthly IDCW Option (Payout and Reinvestment) | 0.050 | 10.00 | 11.435 |
| HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan - Direct Plan - Monthly IDCW Option (Payout and Reinvestment) | | | 11.317 |

Amount of distribution per unit will be the lower of that mentioned above or the available distributable surplus (rounded down to a multiple of five at the third decimal) as on the Record Date.

Pursuant to the Distribution, the NAV of the IDCW Option(s) of the above Scheme would fall to the extent of such distribution and statutory levy, if any.

Amount will be paid, net of applicable tax deducted at source (TDS), to those Unit holders / Beneficial Owners whose names appear in the Register of Unit holders maintained by the Fund / Statements of Beneficial Ownership maintained by the Depositories, as applicable, under the IDCW Option(s) of the aforesaid Scheme on the Record Date (including investors whose valid purchase / switch-in requests are received by the Fund and the funds are available for utilization before cut-off timings in respect of the aforesaid Scheme, on the Record date).

With regard to Unit holders who have opted for Reinvestment facility under the IDCW Option(s), the amount due (net of applicable TDS) will be reinvested, by allotting Units at the applicable NAV per Unit (adjusted for applicable stamp duty).

As mandated under SEBI (Mutual Funds) Regulations, 2026 and Master circular for Mutual Funds dated March 20, 2026, for redemptions and IDCW declared, payout will be done only through electronic mode(s), even where a Unit holder has opted to receive physical instruments.

Thus, payment of such amounts shall be made through physical instruments, only in exceptional circumstances for reasons to be recorded by the AMC. Accordingly, unit holders who have opted for / have earlier received physical instruments are requested to update their bank account details by / sending us a copy of a cancelled cheque of first / sole holder's bank account.

All updations of PAN, KYC, email address, mobile number, nominee details, etc. should immediately be forwarded to the Investor Services Centers of the Fund (for units held in non-demat form) / Depository Participant (for units held in demat form). Unit holders are also advised to link their PAN with Aadhaar Number. Further, Unit holders can view the Investor Charter available on website of the Fund as well as check for any unclaimed redemptions or IDCW payments.

In view of individual nature of tax consequences, each investor should seek appropriate advice.

For HDFC Asset Management Company Limited (Investment Manager to HDFC Mutual Fund)

Place: Mumbai Sd/-
Date: April 16, 2026 Authorized Signatory

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

JAUSS POLYMERS LIMITED
Registered Office: Plot No. 51, Roz ka meo Industrial area, Gurgaon, Sohna, Haryana - 122103, India
Contact Number: 0120-7195236-39 | Email: response@jausspolymers.com | Website: www.jausspolymers.com
Corporate Identification Number: L74899HR1987PLC066065

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Jauss Polymers Limited (herein referred as the "Target Company") in relation to the Open Offer ("Offer") made by M/s. Noize Brands and Lifestyle Limited (hereinafter referred as "Acquirer") and Mr. Aditya Chopra person acting in concern ("PAC") to the Public Shareholders of the Target Company under Regulation 3(1) and 4 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amended from time to time (herein referred as the "Takeover Code").

| Topic | Particular |
|--|--|
| Date | Thursday, April 16, 2026 |
| Name of the Company | Jauss Polymers Limited |
| Details of offer pertaining to the Target Company | This Offer is being made pursuant to Regulation 3(1) and 4 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments there to for acquisition of up to 12,02,650 (Twelve Lakhs Two Thousand Six Hundred Fifty Only) Equity Shares of ₹10/- each at an Offer Price of ₹16.05/- per equity share, payable in cash, aggregating to ₹1,93,02,533/- (Rupees One Crore Ninety Three Lakh Two Thousand Five Hundred Thirty Three Only) representing 26.00% of Equity share capital. |
| Name of the Acquirer and PAC with the Acquirer | Acquirer: M/s Noize Brands and Lifestyle Limited PAC: Mr. Aditya Chopra |
| Name of the Manager to the Offer | Grete Corporate Services Limited Reg. Address: A-401, Floor 4th Plot, FP-616, (PT), Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Near India bulls, Dadar (West), Mumbai - 400013, India. |
| Members of the Committee of Independent Directors (IDC) | 1. Mr. Saurabh Jibhau Shewale - Chairperson 2. Mr. Rajani Shirish Laddha - Member 3. Mr. Maddi Venkata Sudarsan - Member |
| IDC Members Relationship with the Target Company (Director, Equity Share Owned and Other Contract/ Relationship) if any. | All the members of the IDC are Non - Executive Independent Directors of the Company, Except for being Directors of the Company, The Committee Member neither hold any equity shares in the company nor do they have any contract/ relationship with the Target Company. |
| Trading in Equity Shares/Securities of the target company by IDC Members | None of the IDC Members have traded in any securities of JAUSPOL during 12 months prior to the Public Announcement of the offer. |
| IDC Member's relationship with the Acquirer/Directors, Equity shares owned, and other contract Relationship) if any. | None of the IDC Members hold any contracts, nor have any relationship with the Acquirer and nor have traded in Shares of the Acquirer or related to the Acquirer. |
| Recommendation on Delisting Offer, as to whether the offer, is or is not, fair and reasonable. | Based on the review, IDC members believe that the Offer is fair and Reasonable and in line with the SEBI SAST Regulations, 2011 and is in the interest of the Public Shareholders and the Target Company. |
| Disclosures of the Voting Pattern of the meeting in which the open offer proposed was discussed | All the IDC Members unanimously voted in favour of recommending the open offer proposal. |
| Summary of reasons for recommendation | IDC Members have reviewed and Noted a. Public Announcement dated February 04, 2026 b. Detailed Public Announcement dated February 11, 2026 c. Draft Letter of Offer dated February 18, 2026 d. SEBI observation letter dated April 06, 2026 e. Letter of Offer dated April 10, 2026 The IDC members also noted that a) The Equity Shares of the Target Company are frequently traded on BSE in terms of Regulation 2(1)(j) of the Takeover Code. b) The Offer Price is in accordance with Regulation 8 of the Takeover Code. Based on review of the above documents the members of the IDC are of the view that the offer price is in line with the parameters prescribed by SEBI in the SEBI SAST Regulations. |
| Details of Independent Advisors, if any. | None |
| Any other matter to be highlighted | None |

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the Takeover Code.

For and on behalf of the Committee of Independent Directors of Jauss Polymers Limited
Sd/-
Mr. Saurabh Jibhau Shewale
Chairperson of Independent Director Committee

Place: Gurgaon
Date: April 16, 2026

प्रारम्भ संख्या आईएनसी-26
(कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार) में
केंद्रीय सरकार, प्रादेशिक निदेशक,
उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगम)
नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में,
और
सेबल सिक्यूरिटी फंडेशन
(CIN : U85100DL2005NPL132235)
जिसका पंजीकृत कार्यालय आरकेडी-261-ए-19, एफ/एफ आर/एस तुलकाबाद
एक्सटेंशन, उत्तर-पूर्व, नई दिल्ली-110019 स्थित है, के मामले में,
याचिकाकर्ता
एनएलएल सार्वजनिक सूचना की जाती है कि कंपनी, कंपनी अधिनियम की धारा 13 में
धारा 8 के अंतर्गत, कंपनी द्वारा दिन से 13 अप्रैल, 2026 को आयोजित
असाधारण सभा में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को "प्रारम्भिक प्रस्तावित क्षेत्र" से
"एक्सटेंशन" राज्य में स्थानांतरित करने के उद्देश्य से कंपनी के संगम ज्ञान में
संशोधन हेतु पारित विशेष संकल्प के अनुमोदन के लिए केंद्रीय सरकार के समक्ष
आवेदन करने जा रही है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित
प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निदेशक शिकायत प्रारम्भ कर
एनएलएल-21 पोर्टल (www.nclt.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक
साथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रस्ताव और उसके विरोधा का कारण उल्लिखित हो, के
साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14
दिनों के भीतर **डी-2 विंग, द्वितीय तल, पी. वी. नारायण अय्यर भवन, सी जी ओ
कोम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुझाव
कर सकता है और इसकी प्रती आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत
कार्यालय पर भी भेजे : **आरकेडी-261-ए-19, एफ/एफ आर/एस तुलकाबाद
एक्सटेंशन, उत्तर-पूर्व, नई दिल्ली-110019**।
आवेदक के लिए एचकी और से
डी. सेबल सिक्यूरिटी फंडेशन
हस्ताक्षर
(सुनील पुष्कोपनन अग्रवाल)
निदेशक
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.04.2026
सीआईएन 0006991

निककी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड
CIN: L65999DL1986PLC024493
पंजी. क्रमांक.: 215, दिल्ली चौराहा, दिल्ली गेट, नई दिल्ली, दिल्ली-110002
वेब: www.nikkiglobal.com
ई-मेल: ngftid@rediffmail.com
31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए
वेबसाइट पर प्रकाशित परिणाम

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही-वर्ष | 31 मार्च, 2026 तक वर्ष दर आंकड़े | 31 मार्च, 2025 वर्ष वर्ष में समाप्त अंकव्यय तिमाही |
|----------|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1. | प्रधानमंत्री से कुल आय | 39.88 | 39.88 | 0.04 |
| 2. | अवधि के लिए जुटाव लाभ (ऋण) (कार, स्वयंसेवा और असाधारण वर्षों से पूर्व) | 34.69 | 25.35 | -5.31 |
| 3. | कार से पूर्व अवधि के लिए जुटाव लाभ (ऋण) (स्वीकार्य और असाधारण के बाद) | 34.69 | 25.35 | -5.31 |
| 4. | कार के बाद अवधि के लिए जुटाव लाभ (ऋण) (स्वीकार्य और असाधारण वर्षों के बाद) | 30.73 | 21.39 | -5.31 |
| 5. | अवधि के लिए कुल चक्रवर्त आय (अवधि (कार के बाद) के लिए कुल चक्रवर्त लाभ (ऋण) तथा अन्य चक्रवर्त आय (कार के बाद) को शामिल करके) | 30.73 | 21.39 | -5.31 |
| 6. | इक्विटी शेयर पूंजी | 341.97 | 341.97 | 341.97 |
| 7. | आरंभिक (पूर्वनिष्ठाकार आरंभियों के अतिरिक्त) | 0.00 | -190.71 | 0 |
| 8. | 10/- रु. प्रति के आय प्रति शेयर (आरंभिक वर्ष बाद प्रधानमंत्री के लिए) | | | |
| | 1. मूल | 0.89 | 0.63 | -0.16 |
| | 2. अंकव्यय | 0.89 | 0.63 | -0.16 |

टिप्पणी: ए) उपरोक्त विवरण वेबी (यूएफडीएल तथा अन्य प्रकटीकरण उपकरण) विनियमों, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत वेब साइट पर प्रकाशित तिमाहिक/वार्षिक तिमाहिक परिणामों के विवरण प्रारम्भ का स्वरूप है। तिमाहिक/वार्षिक तिमाहिक परिणामों का संग्रह विवरण वेब साइट को वेबसाइट और यूएफडीएल पर उपलब्ध है।
कृपया निम्नलिखित ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड
हस्ताक्षर: सुनील कुमार शर्मा
(प्रबंध निदेशक)
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 15.04.2026
DIN: (09745776)

एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड
सीआईएन: L27109DL1995PLC338407
पंजी. एवं संयुक्त कार्यालय: बानी कारपोरेट वन टावर, सुई नं. 308,
तीसरा तल, प्लॉट नं. 5, डिस्ट्रिक्ट कॉमिश्नल सेंटर, जसोला, दिल्ली-110025
टेली: +91-11-44792982, फैक्स: +91-11-4340 1205
ईमेल: cs@mblinfra.com, वेबसाइट: www.mblinfra.com

डाक मतपत्र की सूचना
कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108, 110 और अन्य लागू प्रावधानों,
यदि कोई हो, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 के
साथ पठित, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण
आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम) के विनियम 44, कंपनी सचिव
संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैटकों पर सचिवीय मानक, प्रत्येक यथासंशोधित, कारपोरेट
कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य बैटक आयोजित करने/ई-वोटिंग ('एमसीए परिपत्र')
के माध्यम से सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 के पत्र द्वारा
डाक मतपत्र प्रक्रिया आयोजित करने के लिए, और कोई अन्य लागू कानून, नियम और
विनियम (जिसमें कोई वैधानिक संशोधन (ओं) या पुनः अधिनियमन (ओं) शामिल हैं),
जो नोटिस में निर्धारित संकल्प कंपनी के सदस्यों द्वारा केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम
("रिमोट ई-वोटिंग") के माध्यम से मतदान द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से पारित करने
के लिए विचार करने के लिए प्रस्तावित हैं।

| क्र. सं. | प्रस्ताव का प्रकार | प्रस्ताव का विवरण |
|----------|--------------------|--|
| 1. | विशेष प्रस्ताव | श्री राम दयाल मोदी (डीआईएन: 03047117) की कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्निर्वाचित। |
| 2. | विशेष प्रस्ताव | प्रतिभूतियों का निर्गमन |

एमसीए परिपत्र में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के संदर्भ में, कंपनी ने 15 अप्रैल 2026 को
केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्पष्टीकरण विवरण के साथ डाक मतपत्र
नोटिस का प्रेषण पूरा किया है, जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में 10 अप्रैल
2026 ('कट-ऑफ डेट') को बनाए गए हितधारक मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते
हैं और जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। तदनुसार, इस डाक
मतपत्र के लिए सदस्यों को डाक मतपत्र प्रपत्र और पूर्ववर्ती व्यवसाय उत्तर लिफाफे के
साथ नोटिस की एक भौतिक प्रति नहीं भेजी गई है।
जिन सदस्यों के नाम 10 अप्रैल 2026 (कट-ऑफ तिथि) को कंपनी/डिपॉजिटरी द्वारा
रखे गए सदस्यों/लाभकारी स्वामियों की सूची में हैं, वे डाक मतपत्र नोटिस में निर्धारित
प्रस्तावों पर मतदान करने के हकदार हैं। सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि
अर्थात् 10 अप्रैल 2026 को कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी के अनुपात में होंगे। जो व्यक्ति
कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से मानना
चाहिए। डाक मतपत्र नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.mblinfra.com, स्टॉक
एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया
लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com और
एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगा।
कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके नियम और सेबी (सूचीकरण दायित्व और
प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 (संशोधित) के विनियम 44 तथा एमसीए
परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की
सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत पत्रों के रूप में नेशनल सिक्विटीज डिपॉजिटरी
लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ एक समझौता किया है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे
केवल ई-वोटिंग के माध्यम से अपनी सहमति या असहमति प्रदान करें।
रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 16 अप्रैल, 2026 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी) से
शुरू होती है और 15 मई, 2026 को रात 05:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होती है, इसके
बाद रिमोट ई-वोटिंग को एनएसडीएल द्वारा ब्लाक कर दिया जाएगा।
कंपनी के निदेशक मंडल ने 11 अप्रैल, 2026 को सुश्री अंजलि यादव, प्रैक्टिसिंग कंपनी
सचिव, (सदस्यता संख्या एफसीएस 6628) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट
ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया।
डाक मतपत्र का परिणाम 15 मई, 2026 को घोषित किया जाएगा और यह कंपनी की
वेबसाइट www.mblinfra.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट
www.evoting.nsdl.com पर तत्काल उपलब्ध होगा। ऐसे परिणाम कंपनी के
पंजीकृत कार्यालय के साथ-साथ कारपोरेट कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किए
जाएंगे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड को
क्रमशः www.nseindia.com तथा www.bseindia.com पर भेजे जाएंगे।
ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य श्री अनुभव महेश्वरी,
कंपनी सचिव, एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, बानी कारपोरेट वन, सुई नंबर 308,
तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 5, कमर्शियल सेंटर, जसोला, नई दिल्ली- 110025 को लिख
सकते हैं या 011-44792982 पर या ईमेल cs@mblinfra.com पर संपर्क करें।
इसके अलावा ई-वोटिंग प्रश्नों के लिए, शेरधारक <https://www.evoting.nsdl.com> के "डाउनलोड" अनुभाग के तहत उनके लिए अक्सर
पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएव्यू) को देख सकते हैं या 022-4886 7000 पर कॉल कर
सकते हैं या सुश्री पलववी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल को
e-voting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें।
बोर्ड के आदेशानुसार
कृते एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि.
हस्ताक्षर:-
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 15.04.2026
अनुभव महेश्वरी
कंपनी सचिव

OFFER OPENING PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS OF
SIMANDHAR IMPEX LIMITED
("SIL"/"TARGET COMPANY"/"TC")
(Corporate Identification No. U46498MH2023PLC415552)
Registered Office: 811, A Wing, Jaswanti Allied, Business Center, Kanchpada,
Malad West, Mumbai, Maharashtra - 400064;
Phone No.: +91-9082258451; Email id: info@simandharimpex.com; Website: www.simandharimpex.com

This Advertisement is being issued by Navigant Corporate Advisors Limited, on behalf of Farmico International Private Limited (hereinafter referred to as the "Acquirer") pursuant to regulation 18(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations") in respect of Open Offer ("Offer") for the acquisition of up to 7,75,310 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 25.36% of the total equity and voting share capital of the Target Company. The Detailed Public Statement ("DPS") pursuant to the Public Announcement ("PA") made by the Acquirer have appeared in Financial Express - English Daily (all editions); Jansatta - Hindi Daily (all editions); Pratahkal - Marathi Daily (Mumbai edition) on 22nd January, 2026.

- The Offer Price is Rs. 30.00/- (Rupees Thirty Only) per equity share payable in cash ("Offer Price").
- Committee of Independent Directors ("IDC") of the Target Company are of the opinion that the Offer Price of Rs. 30.00/- (Rupees Thirty Only) offered by the Acquirer is in accordance with the relevant regulations prescribed in the Takeover Code and prima facie appear to be justified. The recommendation of IDC was published in the aforementioned newspapers on 16th April, 2026.
- There has been no competitive bid to this Offer.
- The completion of dispatch of The Letter of Offer ("LOF") to all the Public Shareholders of Target Company was completed on 08th April, 2026.
- Please note that a copy of the LOF is also available on the website of Securities and Exchange Board of India (SEBI), www.sebi.gov.in and also on the website of Manager to the Offer, www.navigantcorp.com and shareholders can also apply on plain paper as per below details:
Eligible Person(s) may participate in the Offer by approaching their respective Broker/Selling Broker and tender Shares in the Open Offer as per the procedure along with other details.
- In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Draft Letter of Offer had been submitted to SEBI on 30th January, 2026. We have received the final observations in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations from SEBI vide its Letter No. HO/49/12/11(35)2026-CFD-RAC-DCR1/U8242/2026 dated March 30, 2026 which have been incorporated in the LOF.

7. Any other material changes from the date of PA: Nil
8. Schedule of Activities:

| Activity | Original Date | Original Day | Revised Date | Revised Day |
|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| Public Announcement | 14.01.2026 | Wednesday | 14.01.2026 | Wednesday |
| Publication of Detailed Public Statement in newspapers | 22.01.2026 | Thursday | 22.01.2026 | Thursday |
| Submission of Detailed Public Statement to BSE, Target Company & SEBI | 22.01.2026 | Thursday | 22.01.2026 | Thursday |
| Last date of filing draft letter of offer with SEBI | 30.01.2026 | Friday | 30.01.2026 | Friday |
| Last date for a Competing offer | 13.02.2026 | Friday | 13.02.2026 | Friday |
| Receipt of comments from SEBI on draft letter of offer | 23.02.2026 | Monday | 30.03.2026 | Monday |
| Identified date* | 25.02.2026 | Wednesday | 02.04.2026 | Thursday |
| Date by which letter of offer be dispatched to the shareholders | 05.03.2026 | Thursday | 10.04.2026 | Friday |
| Last date for revising the Offer Price | 10.03.2026 | Tuesday | 16.04.2026 | Thursday |
| Comments from Committee of Independent Directors of Target Company | 10.03.2026 | Tuesday | 16.04.2026 | Thursday |
| Advertisement of Schedule of activities for open offer, status of statutory and other approvals in newspapers and sending to SEBI, Stock Exchange and Target Company | 11.03.2026 | Wednesday | 17.04.2026 | Friday |
| Date of Opening of the Offer | 12.03.2026 | Thursday | 20.04.2026 | Monday |
| Date of Closure of the Offer | 27.03.2026 | Friday | 04.05.2026 | Monday |
| Post Offer Advertisement | 07.04.2026 | Tuesday | 11.05.2026 | Monday |
| Payment of consideration for the acquired shares | 15.04.2026 | Wednesday | 18.05.2026 | Monday |
| Final report from Merchant Banker | 22.04.2026 | Wednesday | 25.05.2026 | Monday |

*Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All owners (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except the Acquirer, Sellers, Promoter & Promoter Group and persons deemed to be acting in concert) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer.
All other terms and conditions remain unchanged. Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and LOF.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER

NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED
804, Meadows, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurta Road, Andheri East, Mumbai - 400059.
Tel No. +91 22 4120 4837 / 4973 5078 Email id: navigant@navigantcorp.com
Website: www.navigantcorp.com SEBI Registration No: INM000012243
Contact person: Mr. Sarthak Vijani

Place: Mumbai
Date: April 16, 2026

JAUSS POLYMERS LIMITED
Registered Office: Plot No. 51, Roz ka meo Industrial area, Gurgaon, Sohna, Haryana - 122103, India
Contact Number: 0120-7195236-39 | Email: response@jausspolymers.com | Website: www.jausspolymers.com
Corporate Identification Number: L74899HR1987PLC066065

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Jauss Polymers Limited (herein referred as the "Target Company") in relation to the Open Offer ("Offer") made by M/s. Noise Brands and Lifestyle Limited (hereinafter referred as "Acquirer") and Mr. Aditya Chopra person acting in concert ("PAC") to the Public Shareholders of the Target Company under Regulation 3(1) and 4 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amended from time to time (herein referred as the "Takeover Code").

| Topic | Particular |
|--|---|
| Date | Thursday, April 16, 2026 |
| Name of the Company | Jauss Polymers Limited |
| Details of offer pertaining to the Target Company | This Offer is being made pursuant to Regulation 3(1) and 4 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments there to for acquisition of up to 12,02,650 (Twelve Lakhs Two Thousand Six Hundred Fifty Only) Equity Shares of ₹10/- each at an Offer Price of ₹16.05/- per equity share, payable in cash, aggregating to ₹1,93,02,533/- (Rupees One Crore Ninety Three Lakh Two Thousand Five Hundred Thirty Three Only) representing 26.00% of Equity share capital. |
| Name of the Acquirer and PAC with the Acquirer | Acquirer: M/s Noise Brands and Lifestyle Limited PAC: Mr. Aditya Chopra |
| Name of the Manager to the Offer | Gretek Corporate Services Limited Reg. Address: A-401, Floor 4th Plot, FP-616, (PT), Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Near India bulls, Dadar (West), Mumbai - 400013, India. 1. Mr. Saurabh Jibhau Shewale - Chairperson 2. Mr. Rajani Shishir Laddha - Member 3. Mr. Maddi Venkata Sudarsan - Member |
| Members of the Committee of Independent Directors (IDC) | All the members of the IDC are Non - Executive Independent Directors of the Company, Except for being Directors of the Company, The Committee Member neither hold any equity shares in the company nor do they have any contract/relationship with the Target Company. |
| Trading in Equity Shares/Securities of the target company by IDC Members | None of the IDC Members have traded in any securities of JAUSPOL during 12 months prior to the Public Announcement of the offer. |
| IDC Member's relationship with the Acquirer(Directors, Equity shares owned, and other contract Relationship) if any. | None of the IDC Members hold any contracts, nor have any relationship with the Acquirer and nor have traded in Shares of the Acquirer or related to the Acquirer. |
| Recommendation on Delisting Offer, as to whether the offer is or is not, fair and reasonable. | Based on the review, IDC members believe that the Offer is fair and Reasonable and in line with the SEBI SAST Regulations, 2011 and is in the interest of the Public Shareholders and the Target Company. |
| Disclosures of the Voting Pattern of the meeting in which the open offer proposed was discussed | All the IDC Members unanimously voted in favour of recommending the open offer proposal. |
| Summary of reasons for recommendation | IDC Members have reviewed and Noted a. Public Announcement dated February 04, 2026 b. Detailed Public Announcement dated February 11, 2026 c. Draft Letter of Offer dated February 18, 2026. d. SEBI observation letter dated April 06, 2026 e. Letter of Offer dated April 10, 2026 The IDC members also noted that a) The Equity Shares of the Target Company are frequently traded on BSE in terms of Regulation 2(1)(j) of the Takeover Code. b) The Offer Price is in accordance with Regulation 8 of the Takeover Code. Based on review of the above documents the members of the IDC are of the view that the offer price is in line with the parameters prescribed by SEBI in the SEBI SAST Regulations. |
| Details of Independent Advisors, if any. | None |
| Any other matter to be highlighted | None |

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the Takeover Code.

For and on behalf of the Committee of Independent Directors of Jauss Polymers Limited
Sd/-
Mr. Saurabh Jibhau Shewale
Chairperson of Independent Director Committee

Place: Gurgaon
Date: April 16, 2026

KWALITY WALL'S (INDIA) LIMITED
Registered Office: 13th Floor, Oberoi Commerz II, International Business Park, Oberoi Garden City, Goregaon East, Mumbai, Maharashtra, India, 400063;
Website: www.kwalitywallsindia.com.
Tel: 022-4574 7000
CIN: L10505MH2025PLC437886

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Kwalty Wall's (India) Limited ("Target Company") under Regulation 26(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations") on the Open Offer (as defined below) made by The Magnum Ice Cream Company HoldCo 1 Netherlands B.V. ("Acquirer") along with Magnum ICC Finance B.V. ("PAC 1") and The Magnum Ice Cream Company N.V. ("PAC 2") (PAC 1 and PAC 2, collectively "PACs"), in their capacity as the persons acting in concert with the Acquirer, to the Public Shareholders (as defined in the letter of offer dated 10th April 2026) of the Target Company.

| No. | Date | 16th April, 2026 |
|-----|--|---|
| 1 | Name of the Target Company (TC) | Kwality Wall's (India) Limited |
| 2 | Details of the Offer pertaining to TC | Open offer for acquisition of up to 61,08,93,729 (Sixty One Crore Eight Lakh Ninety Three Thousand Seven Hundred and Twenty Nine) fully paid-up equity shares of the Target Company having face value of INR 1/- (Indian Rupees One only) each ("Equity Shares"), representing 26.00% of the Voting Share Capital (as defined in the letter of offer dated 10th April, 2026), at a price of INR 21.33 (Indian Rupees Twenty One and Paise Thirty Three only) per Equity Share ("Offer Price"), from the Public Shareholders of the Target Company ("Open Offer"/"Offer"). The public announcement dated 16th February, 2026 ("PA"), the detailed public statement published on 20th February, 2026 ("DPS"), the draft letter of offer dated 27th February, 2026 ("DLOF") and the letter of offer dated 10th April, 2026 ("LOF") have been issued by Kotak Mahindra Capital Company Limited, the manager to the Open Offer, on behalf of the Acquirer and PACs ("Open Offer Documents"). |
| 3 | Name(s) of the Acquirer and PACs with the Acquirer | Acquirer: The Magnum Ice Cream Company HoldCo 1 Netherlands B.V. PAC 1: Magnum ICC Finance B.V. PAC 2: The Magnum Ice Cream Company N.V. |
| 4 | Name of the Manager to the Open Offer | Kotak Mahindra Capital Company Limited 27BKC, 1 st Floor, Plot No. C-27, 'G' Block, Bandra Kurta Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 Contact Person: Mr. Ganesh Rane Tel. No.: +91 22 4336 0758 Fax No.: +91 22 6713 2447 Email: kwil.openoffer@kotak.com SEBI Registration Number: INM000008704 Validity Period: Permanent Registration |
| 5 | Members of the Committee of Independent Directors | a) Ravindra Pisharody - Chairperson b) Madhavan Hariharan c) Shukla Wassan d) Jayaraman Vaidyaraman (JV Raman) |
| 6 | IDC Member's relationship with the TC (Director, equity shares owned, any other contract/relationship), if any | All the members of the IDC are independent directors on the board of directors of the Target Company. Except as mentioned below, none of the members of the IDC (and/ or their immediate relatives, as defined under the SEBI (SAST) Regulations ("Immediate Relatives") hold any Equity Shares of the Target Company or none of the members of the IDC have entered into any contract/relationship with the Target Company: a) Mr. Ravindra Pisharody is the chairperson of Nomination and Remuneration Committee of the Target Company and is a member of the Stakeholders Relationship Committee of the Target Company. Further, Mr. Ravindra Pisharody holds 150 Equity Shares, which were allotted pursuant to the scheme of arrangement amongst Hindustan Unilever Limited, Target Company and their respective shareholders ("Scheme"). b) Mr. Madhavan Hariharan is the chairperson of Audit Committee of the Target Company and is a member of the Nomination and Remuneration Committee and Risk Management Committee of the Target Company. c) Ms. Shukla Wassan is the chairperson of Stakeholders Relationship Committee of the Target Company and is a member of the Audit Committee of the Target Company. Further, Ms. Shukla Wassan's sister Ms. Sujata Gupta, holds 906 Equity Shares. d) Mr. JV Raman is the chairperson of Risk Management Committee of the Target Company and is a member of the Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee of the Target Company. Further, Mr. JV Raman holds 25,237 Equity Shares, and his spouse Ms. Lochani Ramakrishnan holds 1,230 Equity Shares which were allotted pursuant to the Scheme, respectively. |
| 7 | Trading in the equity shares/ other securities of the TC by IDC Members | Other than as set out in paragraph 7 above, none of the members of the IDC have traded in any of the Equity Shares/ other securities of the Target Company during the: a) 12 months period preceding the date of the PA; and b) period from the date of the PA and till the date of this recommendation. |
| 8 | IDC Member's relationship with the Acquirer and PACs (Director, equity shares owned, any other contract/relationship), if any. | None of the members of IDC: a) are directors on the boards of the Acquirer and/ or PACs; b) hold any shares or other securities of the Acquirer and/ or PACs; and c) have any contracts/ relationship with the Acquirer and/ or PACs. |
| 9 | Trading in the equity shares / other securities of the Acquirer and PACs by IDC Members | None of the members of the IDC have traded in any of the shares and/ or other securities of the Acquirer and/ or PACs during the: a) 12 months period preceding the date of the PA; and b) period from the date of the PA and till the date of this recommendation. |
| 10 | Recommendation on the Open Offer, as to whether the offer is fair and reasonable | The IDC perused the Open Offer Documents which <i>inter alia</i> set out the computation of the Offer Price as per applicable regulations of the SEBI (SAST) Regulations. The IDC notes that the Offer Price of INR 21.33 (Indian Rupees Twenty One and Paise Thirty Three only) per Equity Share has been determined in accordance with Regulations 8(1) and 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations, being the highest of various parameters mentioned therein, and is accordingly of the opinion that the Offer Price appears to be fair and reasonable. |
| 11 | Summary of reasons for recommendations | The IDC has perused the Open Offer Documents, and has considered the following for making the recommendations in paragraph 11 above: a) The Target Company received listing and trading approval from the stock exchanges on 12th February, 2026, and the Equity Shares of the Target Company commenced trading on the stock exchanges on 16th February, 2026. Consequently, there is no trading history for the Equity Shares of the Target Company prior to the date of the PA. Since the Equity Shares were not listed and did not trade on the stock exchanges during the 12 (twelve) calendar months preceding the calendar month in which the PA was made, the Equity Shares are not considered to be frequently traded in terms of Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations. b) Since the Equity Shares are not frequently traded, the Offer Price has been determined by taking into account: (i) the valuation report dated 13th February, 2026 issued by Bansi S. Mehta Valuers LLP (IBBI/RV - E/06/2022/172), an independent registered valuer, which arrived at a fair value of INR 21.33 (Indian Rupees Twenty One and Paise Thirty Three only) per Equity Share; and (ii) the valuation report dated 13th February, 2026 issued by PwC Business Consulting Services LLP (IBBI/RV - E/02/2022/158), an independent registered valuer, which arrived at a fair value of INR 20.95 (Indian Rupees Twenty and Paise Ninety Five only) per Equity Share. c) The Offer Price is higher than the negotiated price for acquisition of the Equity Shares of the Target Company by the Acquirer under the agreement attracting the obligation to make the Open Offer i.e., the share purchase agreement dated 25th June, 2025. d) The Offer Price (being the highest price amongst the prescribed parameters) has been determined in accordance with Regulations 8(1) and 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations. However, the members of IDC draw the attention of the Public Shareholders to the closing market price of the Equity Shares on the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited as on 15th April, 2026, being INR 25.22 (Indian Rupees Twenty Five and Paise Twenty Two only) per Equity Share and INR 25.23 (Indian Rupees Twenty Five and Paise Twenty Three only) per Equity Share, respectively, which is higher than the Offer Price. The Public Shareholders of the Target Company are advised to independently evaluate the Open Offer and the market performance of the Target Company's scrip and take an informed decision about tendering the Equity Shares held by them in the Open Offer. The statement of recommendation will be available on the website of the Target Company at www.kwalitywallsindia.com . |
| 12 | Disclosure of the voting pattern | The recommendations were unanimously approved by the members of the IDC present at the meeting of the IDC held on 16th April, 2026. |
| 13 | Details of Independent Advisors, if any. | None |
| 14 | Any other matter(s) to be highlighted | None |

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respects, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations.

For and on behalf of the Committee of the Independent Directors of Kwalty Wall's (India) Limited
Sd/-
Mr. Ravindra Pisharody
Chairperson - Committee of Independent Directors
Date: 16th April, 2026
Place: Mumbai
DIN: 01875848

वार्ड कमेटी के सदस्यों को सम्मान के साथ जिम्मेदारी भी मिली : नायब सैनी

- वार्ड कमेटी के सदस्यों के सुझावों को प्राथमिकता दें अधिकारी, - वार्डों में होने वाले कार्यों की निगरानी रखेंगे वार्ड कमेटी के सदस्य

ब्यूरो/गुड़गांव मेल
गुड़गांव, 16 अप्रैल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में विशेषकर सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक वार्ड में वार्ड कमेटी का गठन किया गया है। सभी वार्डों में गठित यह कमेटी अपने वार्ड में सफाई व्यवस्था की निगरानी करेगी। कमेटी के सदस्य सफाई से संबंधित समस्या और सुझाव भी अधिकारियों के साथ साझा करेंगे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह ने यह बात गुरुवार को प्रदेश के सभी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों में वार्ड कमेटी के सदस्यों को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा। नगर निगम मानेसर की ओर यह कार्यक्रम मानेसर स्थित पॉलीटेक्निक कॉलेज में आयोजित किया गया। इस दौरान मेयर डॉ. इंद्रजीत कौर यादव, आयुक्त प्रदीप सिंह, सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण यादव, डिप्टी मेयर रीमा चौहान, संयुक्त आयुक्त लोकेश यादव, उप-निगम आयुक्त अपूर्व चौधरी सहित सभी पार्षद और प्रत्येक वार्ड के सदस्य मौजूद रहे।



कमेटी के सदस्य अपने वार्ड में हो रहे विकास कार्य की निगरानी

रखेंगे। यदि तय शर्तों के अनुसार काम नहीं किए जा रहे तो अपनी

आपत्ति और सुझाव भी नगर निगम को दें सकेंगे। कमेटी

सदस्यों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। इस नंबर पर वे अपने सुझाव दे सकेंगे। इसके अलावा शिकायत निवारण पोर्टल पर वे आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमेटी सदस्य सबसे पहले अपने वार्डों में आमजन को सफाई के प्रति जागरूक करें। लोगों को गीला-सूखा कूड़ा पृथक्करण के महत्व समझाएं। कमेटी के सदस्य यह सुनिश्चित करें कि घरों से कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां रोजाना तय समय पर पहुंचें। इसी के साथ वे इन गाड़ियों के लिए ऐसा रूट मैप तैयार करें कि इन गाड़ियों की पहुंच प्रत्येक घर तक हो। उन्होंने

बताया कि प्रदेश में नगर पालिका, परिषद और निगमों की कुल संख्या 87 है। जिनमें 1692 वार्ड हैं। इनमें से 1520 वार्डों में कमेटीयों का गठन हो चुका है। नगर निगम पंचकुला, अंबाला, सोनीपत और जिला परिषद रेवाड़ी में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। चुनाव उपरांत यहां पर भी वार्ड कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। उन्होंने कमेटी सदस्यों का महत्व बताते हुए कहा कि कमेटी के सदस्य आमजन और निगमों के बीच एक सेतु का काम करेंगे। प्रदेश सरकार जल्द ही 'मेरा वार्ड स्वच्छ वार्ड' योजना चलाकर वार्डों में स्वच्छता

प्रतिस्पर्धा आयोजित करवाएगी। रैंकिंग में अव्वल आने वाले वार्ड को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके उपरांत आयुक्त प्रदीप सिंह ने वहां मौजूद पार्षदों और कमेटी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। अपने-अपने वार्डों की बेहतर के लिए सुझाव दें। सफाई कार्यों की निगरानी रखें। रोड स्वीपिंग मशीनों की कार्यप्रणाली पर नजर रखें। सफाई का काम कर रहे एजेंसी के कार्यों की समीक्षा करें। कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों का समय पर आना सुनिश्चित करें।

विधायक मुकेश शर्मा ने मुख्य रेलवे सड़क पर सीवर लाइन कार्य का शिलान्यास किया



ब्यूरो/गुड़गांव मेल
गुड़गांव, 16 अप्रैल। विधायक मुकेश शर्मा ने वार्ड-33 में रेलवे स्टेशन से प्रकाशपुरी चौक होते हुए लक्ष्मण विहार तक की मुख्य रेलवे सड़क पर 600 मिमी सीवर लाइन कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। लगभग 1.5 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस सीवर लाइन के पूर्ण होने पर क्षेत्र में लंबे समय से बनी जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान होने की उम्मीद है। इसके स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी और आवागमन भी सुगम होगा।

इस अवसर पर विधायक ने कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र के समग्र विकास और नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल निकासी, सड़क, बिजली और अन्य आवश्यक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं, ताकि गुरुग्राम को एक आधुनिक और सुविधाजनक शहर के रूप में विकसित किया जा सके। साथ ही, उन्होंने क्षेत्रवासियों से संवाद करते हुए गुरुग्राम में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी साझा की। इसमें माता शीतला मंदिर के निर्माण कार्य और गुरुग्राम रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं।

इस मौके पर पार्षद श्रीमती सारिका भारद्वाज, श्री प्रशांत भारद्वाज, पार्षद श्रीमती सुरेशा चौहान, श्री रमेश, श्रीमती सुंदरी खत्री, पूर्व पार्षद श्री मंगल राम, श्री श्रीपाल, लक्ष्मण मंडल अध्यक्ष श्री आकाश यादव, श्री पतराम जांगड़ा, श्री विक्रम जांगड़ा, श्री सुनील राठी, श्री ईश्वर, श्री विनोद गहलोत, श्रीमती रीना, श्री विकास स्वामी, श्री वरुण बंटी, श्री मीनू शर्मा, श्री मोनू, श्री हेमंत भारद्वाज, श्री नरबीर (एसएचओ सेक्टर 4), श्री संतोष ठाकुर, श्री महेंद्र चौधरी एवं श्री पवन सोनी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

नारी शक्ति वंदन संकल्प यात्रा में महिलाओं ने दिखाया उत्साह

-33 प्रतिशत आरक्षण के समर्थन में महिलाओं ने निकाली पदयात्रा

ब्यूरो/गुड़गांव मेल
गुड़गांव, 16 अप्रैल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में गुरुवार को जिले में महिलाओं द्वारा नारी शक्ति वंदन संकल्प यात्रा निकाली गई। यह यात्रा राजकीय कन्या महाविद्यालय सेक्टर-14 के पास से शुरू होकर अग्रसेन चौक तक निकाली गई। यात्रा का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के समर्थन में संदेश देना रहा।



सफेद टी-शर्ट और कैप पहने महिलाओं ने हाथों में तख्तियां, पोस्टर और बैनर लेकर नारे लगाते हुए अपनी भागीदारी दर्ज कराई। कार्यक्रम के दौरान संयोजक गार्गी कक्कड़ (प्रदेश सचिव, भाजपा एवं पूर्व चेयरपर्सन, खादी एवं ग्रामोद्योग) की अगुवाई में पूरे आयोजन का संचालन किया गया। उनके नेतृत्व में महिलाओं ने

उत्साह के साथ भाग लेते हुए अभियान को सफल बनाया। इस अवसर पर मंत्रालय के राष्ट्रीय बोर्ड एवं पूर्व सांसद सुधा यादव ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ेगी और वे देश के

विकास में और अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेंगी। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री अर्चना गुप्ता, गुरुग्राम की मेयर राजरानी महलोत्रा, जिला सचिव

निधि मल्होत्रा, जिला सचिव सुचिता शर्मा, जिला महामंत्री महिला पूजा बलहारा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
हस्ताक्षर अभियान में महिलाओं ने बड़-चढ़ाव
जताया समर्थन
नारी शक्ति वंदन संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित हस्ताक्षर अभियान में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में हस्ताक्षर करते हुए इसे महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। महिलाओं ने कहा कि 33 प्रतिशत आरक्षण से उन्हें राजनीति में अपनी भागीदारी बढ़ाने का अवसर मिलेगा और वे समाज के विकास में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेंगी।

चिकित्सा क्षेत्र के माध्यम से मानवता की सेवा करना लक्ष्य : वंदना चोपड़ा



पवन चोपड़ा / गुड़गांव मेल
चंडीगढ़, 16 अप्रैल। सीबीएसई बोर्ड दसवीं का परीक्षा परिणाम आते

हैं। उत्तीर्ण होने वाले बच्चों सहित मां-बाप और सगे संबंधियों में भी खुशी की लहर है। क्योंकि दसवीं

कक्षा के बाद ही बच्चों के सपनों को उड़ान भरने के लिए नई डगर की शुरुआत होती है। चंडीगढ़ में पत्रकारिता क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे पत्रकार पवन चोपड़ा की सुपुत्री वंदना चोपड़ा ने भी दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करते हुए 86.02 नंबर प्राप्त कर मेरिट में स्थान पाया है। जिससे परिवार में खुशी का माहौल है।

चिकित्सक बनना है लक्ष्य : वंदना
दसवीं कक्षा में अच्छे अंक लेने पर वंदना चोपड़ा ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य चिकित्सक बनना है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक को भगवान का दर्जा दिया गया है। जिसके जरिए आप मानवता को निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे आने वाले समय में और भी कड़ी लगन और मेहनत से पढ़ाई करेंगी ताकि उसके सपने साकार हो सकें। उन्होंने बच्चों के माता-पिता से आह्वान किया कि वे पूरी निष्ठा और लगन से पढ़ाई कर समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर माता-पिता और परिवार का नाम रोशन करें। इसी प्रकार से मां-बाप भी विशेष कर लड़कियों को अधिक से अधिक पढ़ाई के लिए प्रेरित करें।


चोपड़ा
वंदना चोपड़ा के पिता पवन चोपड़ा ने कहा कि बेटी द्वारा दसवीं कक्षा में मेरिट में स्थान पाना उनके परिवार के लिए बहुत ही गर्व और खुशी का पल है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि जिस प्रकार से वंदना का पढ़ाई के प्रति विशेष लगन है ऐसे में एक दिन यह एक बड़ा मुकाम हासिल करेगी। उन्होंने भी बच्चों से मेहनत से पढ़ाई करने और मां-बाप को बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनका हौसला बढ़ाने और हर वक्त उनके साथ खड़े रहने की अपील की।

गोपीचंद गहलोत के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर



ब्यूरो/गुड़गांव मेल
गुड़गांव, 16 अप्रैल। केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के अतिरिक्त अनेक सांसद और विधायकों ने विधान सभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर गोपीचंद गहलोत के निधन पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मंत्री ने कहा कि गहलोत जी का निधन प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपना पूरा जीवन जनसेवा और शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उनका सादरगीर्ण जीवन और संघर्षशील व्यक्तित्व हम सभी के लिए प्रेरणा है। वह एक मजबूत एवं संवेदनशील नेतृत्व की

प्रतीक थे। महेंद्रगढ़-भिवानी से सांसद चौधरी ने हमेशा समाज के प्रत्येक वर्गों के उत्थान के लिए काम किया। उनका जाना राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की अपूरणीय क्षति है। गहलोत जी ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उच्च आदर्श स्थापित किए। उन्होंने हमेशा सिद्धांतों की राजनीति की और प्रदेश की समृद्धि के प्रति उनकी निष्ठा अद्वितीय रही। गुरुग्राम को मिलेनिम सिटी बनाने में उनका योगदान संदेव स्मरणीय रहेगा। इस दौरान हरियाणा स्पीकर के



सचिव रामनारायण यादव, पूर्व गृहमंत्री चौधरी हसन मोहम्मद, 360 गांव के चौधरी महेंद्र सिंह ठाकुरान, पूर्व विधायक बलराज सिंह, पूर्व विधायक रामफल कुंडू, पूर्व विधायक बलवंत सिंह मायना, पूर्व विधायक रामकुमार कटवाल, भाजपा पूर्व विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी, पूर्व विधायक विजय लोचब, पूर्व विधायक धर्मवीर सोलंकी, पूर्व विधायक सत्यप्रकाश राणा, पूर्व विधायक स्व. राजेश गहलोत के पुत्र आकाश गहलोत, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता जवाहर यादव, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सैनी, भाजपा सोशल मीडिया आईटी

सेल के अरुण यादव, जेजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दलबीर धनखड़, पूर्व चेयरमैन राज निर्भीक सिंह, भाजपा वरिष्ठ नेता व पूर्व सरपंच अनिल यादव, इनलेको के वरिष्ठ नेता हरिश मलिक, जेजेपी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुरान, अर्जुन अवाडी अमीर सिंह एवं राजकुमार सांगवान, जाट संस्था के प्रधान प्रोफेसर श्याम सिंह, वार्ड-33 के पार्षद प्रशांत भारद्वाज, वार्ड-9 के पार्षद अविनाश रावत, वार्ड-6 के पार्षद सतपाल जांधू, वार्ड-4 के पार्षद प्रदीप पद्म, वार्ड-35 के पार्षद परमेश्वर कटारिया, वार्ड-7 के पार्षद दिनेश दहिया, वार्ड-10 के पार्षद महावीर

यादव, वार्ड-5 के पार्षद राम अवतार राणा, पार्षद पवन सैनी, पूर्व चेयरमैन खुशींद राणा, पूर्व सरपंच कमल गडौली, पूर्व सरपंच अन्तर सिंह दहिया, पूर्व सरपंच सतीश यादव, पूर्व सरपंच राजबीर ठाकुरान, पूर्व सरपंच नरेश सहरावत, गुरुग्राम बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान प्रवेश यादव, शैलेंद्र बहल, नीलम कथूरिया सहित अनेक नेताओं, वकीलों और व्यापारियों ने गहलोत जी के निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके निधन पर शोक व्यक्त किया।

JAUSS POLYMERS LIMITED

Registered Office: Plot No. 51, Roz ka meo Industrial area, Gurgaon, Sohna, Haryana - 122103, India
Contact Number: 0120-7195236-39 | Email: response@jausspolymers.com | Website: www.jausspolymers.com
Corporate Identification Number: L74899HR1987PLC065065

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Jauss Polymers Limited (herein referred as the "Target Company") in relation to the Open Offer ("Offer") made by M/s. Noize Brands and Lifestyle Limited (hereinafter referred as "Acquirer") and Mr. Aditya Chopra person acting in concert ("PAC") to the Public Shareholders of the Target Company under Regulation 3(1) and 4 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amended from time to time (herein referred as the "Takeover Code").

| Topic | Particular |
|---|---|
| Date | Thursday, April 16, 2026 |
| Name of the Company | Jauss Polymers Limited |
| Details of offer pertaining to the Target Company | This Offer is being made pursuant to Regulation 3(1) and 4 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments there to for acquisition of up to 12,02,650 (Twelve Lakhs Two Thousand Six Hundred Fifty Only) Equity Shares of ₹10/- each at an Offer Price of ₹16.05/- per equity share, payable in cash, aggregating to ₹1,93,02,533/- (Rupees One Crore Ninety Three Lakh Two Thousand Five Hundred Thirty Three Only) representing 26.00% of Equity share capital. |
| Name of the Acquirer and PAC with the Acquirer | Acquirer: M/s Noize Brands and Lifestyle Limited PAC: Mr. Aditya Chopra |
| Name of the Manager to the Offer | Grelex Corporate Services Limited Reg. Address: A-401, Floor 4th Plot, FP-616, (PT), Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Near India Bulls, Dadar (West), Mumbai - 400013, India. |
| Members of the Committee of Independent Directors (IDC) | 1. Mr. Saurabh Jibhau Shewale - Chairperson 2. Mr. Rajani Shirish Laddha - Member 3. Mr. Maddi Venkata Sudarsan - Member |
| IDC Members Relationship with the Target Company (Director, Equity Share Owned and Other Contract/Relationship) if any. | All the members of the IDC are Non - Executive Independent Directors of the Target Company. Except for being Directors of the Company, the Committee Member neither hold any equity shares in the company nor do they have any contract/relationship with the Target Company. |
| Trading in Equity Shares/Securities of the target company by IDC Members | None of the IDC Members have traded in any securities of JAUSPOL during 12 months prior to the Public Announcement of the offer. |
| IDC Member's relationship with the Acquirer/Directors, Equity shares owned, and other contract Relationship) if any. | None of the IDC Members hold any contracts, nor have any relationship with the Acquirer and nor have traded in Shares of the Acquirer or related to the Acquirer. |
| Recommendation on Delisting Offer, as to whether the offer, is or is not, fair and reasonable. | Based on the review, IDC members believe that the Offer is fair and Reasonable and in line with the SEBI SAST Regulations, 2011 and is in the interest of the Public Shareholders and the Target Company. |
| Disclosures of the Voting Pattern of the meeting in which the open offer proposed was discussed | All the IDC Members unanimously voted in favour of recommending the open offer proposal. |
| Summary of reasons for recommendation | IDC Members have reviewed and Noted a. Public Announcement dated February 04, 2026 b. Detailed Public Announcement dated February 11, 2026 c. Draft Letter of Offer dated February 18, 2026. d. SEBI observation letter dated April 06, 2026 e. Letter of Offer dated April 10, 2026 The IDC members also noted that a) The Equity Shares of the Target Company are frequently traded on BSE in terms of Regulation 2(1)(j) of the Takeover Code. b) The Offer Price is in accordance with Regulation 8 of the Takeover Code. Based on review of the above documents the members of the IDC are of the view that the offer price is in line with the parameters prescribed by SEBI in the SEBI SAST Regulations. |
| Details of Independent Advisors, if any. | None |
| Any other matter to be highlighted | None |

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the Takeover Code.

For and on behalf of the Committee of Independent Directors of Jauss Polymers Limited
Sd/-
Mr. Saurabh Jibhau Shewale
Chairperson of Independent Director Committee

Place: Gurgaon
Date: April 16, 2026